



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक-10.09.2022

थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा चोरी गयी एक अदद मोटर साइकिल के साथ
02 नफ़र वांछित गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा लूट/चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु चलाये हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के पर्यवेक्षण में थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-286/22 धारा 379/411 भादवि से संबंधित वांछित अमित मौर्या पुत्र श्याम विहारी मौर्या निवासी म0न0 सा0 20/28 पैगम्बरपुर थाना सारनाथ वाराणसी व एक नफ़र बाल अपचारी उम्र करीब 16 वर्ष को आज दिनांक-10.09.2022 को समय करीब 04.25 बजे रंगोली तिराहा से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी 01 अदद मोटर साइकिल के साथ पुलिस हिरासत में लिया गया । उक्त के संबंध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का विवरण- दिनांक-23.07.2022 को वादी मुकदमा श्री सुभम पाण्डेय पुत्र पवन पाण्डेय निवासी 14/25 A बरईपुर थाना सारनाथ वाराणसी ने होटल सिद्धार्थ के सामने से रात करीब 02 बजे दो अज्ञात युवको द्वारा उनकी बाईक चोरी कर लेने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके आधार पर थाना सारनाथ में मु0अ0सं0-286/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1.अमित मौर्या पुत्र श्याम विहारी मौर्या निवासी म0न0 सा0 20/28 पैगम्बरपुर थाना सारनाथ वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष ।
- 2.बाल अपचारी उम्र करीब 16 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण- चोरी गयी 01 अदद मोटर साइकिल KTM वास्तविक नम्बर UP 65 CZ 6106 तथा परिवर्तित नं0 DL 35 EB 4809 बरामद ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में होटल सिद्धार्थ के सामने से इस KTM मोटर साइकिल को चुराया था । मो0सा0 का वास्तविक नम्बर UP 65 CZ 6106 है उस नम्बर प्लेट को निकाल कर फेक दिये तथा उसके स्थान पर DL 35 EB 4809 नम्बर की दूसरी नम्बर प्लेट लगाकर चल रहे थे, दूसरी नम्बर प्लेट लगाने का हम लोगो का मकसद था कि कोई मोटर साइकिल पहचान न सके तथा हम लोग पकड़े न जा सके । हमने अपने शौक को पुरा करने के लिये इस बाइक को चुराया था ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.प्र0नि0 धर्मपाल सिंह थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 2.उ0नि0 अशोक कुमार सिंह थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 3.हे0का0 अरबिन्द कुमार थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 4.मु0आ0 राम बाबू थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 5.आ0 रामानन्द यादव थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी